

P.G.Diploma		DYS-C104						SEMESTER-I	
		Human Anatomy, Physiology and Yoga मानव शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं योग							
Total Lectures	Maximum Marks (MM)	Time	L	T	P	Sessional	End Semester Exam (ESE)	Total Credits	
60	100	3 Hrs.	3	1	0	30	70	04	

**नोट :** इस प्रश्न-पत्र में दो खंड होंगे- अ, और ब। “खण्ड अ” में दस लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से पाँच प्रश्न करने होंगे तथा प्रत्येक छः अंकों का होगा। “खण्ड ब” में आठ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से चार प्रश्न करने होंगे तथा प्रत्येक दस अंकों का होगा। प्रश्न-पत्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।

**इकाई- 1** (अ) शरीर की परिभाषा, मानव शरीर के मुख्य विभाग, कोशिका, ऊतक व संस्थान की अवधारणा तथा इसकी आधारभूत जानकारी (कोशिका की संरचना, मुख्य अवयव व कार्य, ऊतक के प्रकार, संरचना व कार्य, प्रमुख संस्थान व उनके कार्य)  
(ब) पाचन संस्थान- रचना-इसके प्रमुख अवयवों की रचना व कार्य, पाचन क्रिया-कार्बोज, वसा व प्रतनक के पाचन की विस्तृत जानकारी।

**इकाई- 2** (अ) कंकाल तंत्र- अस्थि पंजर के मुख्य अवयव व कार्य, अस्थियों की परस्पर संबद्धता, मेरुदण्ड की हड्डियों की जानकारी, ग्रीवा व कठि कशेलका की रचना व कार्य, संधि स्थलों की जानकारी, इनके आधारभूत अवयव, संधियों के प्रकार, स्वस्थ व विकृत घुटने के जोड़ की संरचना।  
(ब) मांसपेशी तंत्र- मांसपेशी के प्रकार, इनकी संरचना व कार्य, परस्पर भिन्नताएं, मांसपेशियों की अन्य मूलभूत जानकारी।

**इकाई- 3** (अ) श्वसन तंत्र- संरचना, श्वसन क्रिया- बाह्य व आंतरिक, श्वसन क्रिया, नियंत्रण के विभिन्न आधार एवं उनकी प्रक्रिया की जानकारी। फेफड़ों में गैसीय आदान- प्रदान, श्वसनीय क्षमताएं व आयतन, आक्सीजन कर्ज, श्वसन दर- इसके प्रभावी अवयव।  
(ब) रक्तवह संस्थान- संस्थान के विभाग (हृदय, शिरा, धमनी इत्यादि) हृदय दर व नब्ज दर, रक्तचाप- अवधारणा, प्रकार, प्रभावित करने वाले अवयव।

**इकाई- 4** (अ) उत्सर्जन तंत्र- उत्सर्जन संस्थान के अंग इनकी संरचना व कार्य, मूत्र बनने की प्रक्रिया।  
(ब) अंतःस्त्रावी ग्रन्थि तंत्र- अन्तःस्त्रावी ग्रन्थि अवधारणा, नामकरण, प्रमुख ग्रन्थियों का स्थान, हार्मोन व शरीर हेतु कार्य (पीयूष ग्रन्थि, चुलिलका ग्रन्थि, अधिवृक्क ग्रन्थि, अग्नाशय, डिम्ब/शुक्र ग्रन्थि व अन्य ग्रन्थियों की जानकारी)

**इकाई- 5** (अ) तंत्रिका तंत्र- तंत्रिका तंत्र के विभाग/ अंग, मरित्तष्क संरचना- बाह्य व आंतरिक तथा कार्य, सुषुम्ना की रचना व कार्य, स्वचालित तंत्र, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं की समान्य जानकारी।  
(ब) विभिन्न संस्थानों पर यौगिक अभ्यासों (यम- नियम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बन्ध और ध्यान) के शारीरिक- क्रियात्मक प्रभावों की जानकारी।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ-

शरीर रचना विज्ञान - डॉ. मुकुन्द स्वरूप वर्मा

शरीर क्रिया विज्ञान- डॉ. प्रियवृत शर्मा

शरीर रचना व क्रिया विज्ञान- डॉ. एस. आर. वर्मा

आयुर्वेदीय क्रिया शरीर - वैद्य रणजीत राय देसाई

योग चिकित्सा- कुवलयानन्द

योग से आरोग्य-कालिदास जोशी

Yoga Therapy (Hindi & English): Shivanand Saraswati